

## प्रेस नोट दिनांक 15.06.2021

इटावा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में सर्राफा की दुकान में घुसकर लूट करने वाले 02 अभियुक्तों को लूटे हुए माल व अवैध असलाह सहित मात्र 15 घण्टों में किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डा० बृजेश कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर इटावा के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए पुलिस मुठभेड़ में सर्राफा की दुकान में घुसकर लूट करने वाले 02 अभियुक्तों को लूटे हुए माल व अवैध असलाह सहित मात्र 15 घण्टों में किया गया गिरफ्तार।  
घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 14.06.2021 को थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत कचहरी रोड पर स्थित उज्ज्वल ज्वैलर्स के मालिक विशुन कुमार पुत्र ज्ञान सिंह द्वारा थाना कोतवाली पुलिस को सूचना दी गयी कि आज शाम 5:30 बजे 02 अज्ञात युवकों द्वारा दुकान पर आकर अंगूठी दिखाने को कहा और अंगूठी लेने के बाद जब मेने उनसे रूपयों की मांग की गयी तो अभियुक्त तमंचा दिखाकर मुझे धमकाकर 03 अंगूठी लेकर चले गये।

उक्त घटना के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 261/21 धारा 394 भादवि अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी। पुलिस टीम द्वारा इलैक्ट्रॉनिक एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों की पहचान कर गिरफ्तारी हेतु प्रयासरत थी, इसी क्रम में आज दिनांक 15.06.2021 की सुबह पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सर्राफा की दुकान पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 02 अभियुक्त मोटरसाईकिल से कहीं जाने की फिराक में 22 ख्वाजी रोड पर खड़े हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर जब पुलिस टीम 22 ख्वाजा रोड पहुंची तो पुलिस टीम को अपनी ओर आता देख अभियुक्तों द्वारा भागने का प्रयास किया गया, स्वयं को पुलिस टीम से घिरा हुआ देखकर अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर तमंचे से फायर कर दिया गया पुलिस टीम द्वारा स्वयं का बचाव करते हुए आवश्यक बल प्रयोग कर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों की तलाशी लेने पर अभियुक्तों के पास से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस व लूटी हुई 03 अंगूठी बरामद हुई।

### पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 261/21 धारा 394 भादवि थाना कोतवाली, इटावा।
2. मु0अ0सं0 263/21 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली, इटावा।
3. मु0अ0सं0 264/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली, इटावा।

### गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. नन्दन शर्मा पुत्र मनोहर लाल निवासी महावीर मिल कचहरी रोड थाना कोतवाली, मैनपुरी।

2. आशुतोष दुबे पुत्र संजीव दुबे निवासी 381 देवपुरा थाना कोतवाली, मैनपुरी।

बरामदगी:-

1. 03 अंगूठी नग जड़ित(कीमत करीब 01 लाख)
2. 01 तमंचा 315 बोर
3. 01 जिन्दा कारतूस
4. 01 खोखा कारतूस
5. 01 मोटर साईकिल वाहन सं० यूपी 84 एच 9962 स्प्लैण्डर प्लस

पुलिस टीम:-

श्री जितेंद्र प्रताप सिंह प्रभारी निरी० थाना कोतवाली, इटावा, उ०नि० मोहनवीर सिंह, उ०नि० कपिल चैधरी, उ०नि० समित चैधरी मय हमराहा।

सोशल मीडिया सेल  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
इटावा।